

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-74/1411/पांच-8-2015-म(345)/2012

लखनऊ: दिनांक 08 मई, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग, 30प्र0 इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2014 में किये गये चयन के फलस्वरूप पत्र संख्या-162(14)/57/डी0आर0/सेवा-8/2012-13, दिनांक 25-03-2015 में 14 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक /मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के अधीन निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 के नियम 18 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा।
- 2- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से शर्त क्रमांक-5 में निर्धारित अवधि में सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे।
- 3- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न निर्धारित शपथ पत्र के प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त का सत्यापन स्वयं करेगा। उसमें यदि कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें शासन स्तर से तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

क्रमशः

- 4- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें 30प्र0 सरकारी डाक्टर(एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।
- 5- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी दिनांक 08-06-2015 तक अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के समक्ष उपस्थित होंगे तथा शर्त क्रमांक-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे उक्त निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।
- 6- नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु चिकित्साधिकारियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 7- चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-
- (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्नक प्रारूप में)
 - (2) अभियोजन न चलाये जाने, न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा चरित्र प्रागवृत्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आने पर सेवायें समाप्त करने के सम्बन्ध में शपथ पत्र (संलग्न प्रारूप पर)
 - (3) 30प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।
 - (4) ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।
 - (5) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

- (6) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
(7) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।
(8) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।
8- संलग्न सूची में अंकित चिकित्साधिकारियों में से यदि कोई चिकित्साधिकारी पूर्व से पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में कार्यरत है, तो उसे यह लिखित रूप में विकल्प देना होगा कि वह पूर्व में की गयी नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहना चाहता है या वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर। यदि किसी चिकित्साधिकारी द्वारा वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहने का विकल्प दिया जाता है, तो उसके द्वारा पूर्व में की गई सेवा की गणना वरिष्ठता निर्धारण हेतु नहीं की जायेगी।
2- प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित वरिष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
संलग्नक-तैनाती सूची एवं शपथ पत्र का प्रारूप।

अरविन्द नारायण मिश्र
सचिव।

संख्या-74/141(14)/प्रच-8-2015-तददिनांक


प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-162(14)/57/डी0आर0/सेवा-8/2012-13, दिनांक 25-03-2015 के क्रम में।
- 3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्ति आदेश को सर्व सम्बन्धितों को अपने स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियुक्ति में कोई भी परिवर्तन शासन स्तर से ही किया जायेगा।

क्रमशः

- 4- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 30प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्त किये गये चिकित्साधिकारियों के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था करायें तथा चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये गये चिकित्साधिकारी के मामले में स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।
- 5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
- 7- सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका को इस निर्देश के साथ कि वे नियुक्त चिकित्साधिकारी को मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने पर निर्धारित तिथि तक उनके प्रस्तर-7(1) में अलिखित अभिलेखों को प्राप्त कर योगदान आख्या शासन को विलम्बतः एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 10- सम्बन्धित कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 11- गाड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,


(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।


कार्यालय जाप संख्या-74/1411/पांच-8-2015-म(345)/2012, दिनांक 08-05-2015 की तैनाती

सूची का संलग्नक-

क्र. सं.	चयन क्रमांक	अनुक्रमांक	चिकित्साधिकारी का नाम/पिता/ पति का नाम/ पत्र व्यवहार का पता	श्रेणी	गृह जनपद	योग्यता/ विशेषज्ञता	प्रस्तावित तैनाती
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	200	51510212597	डा० प्रकाश कुमार मिश्र/पुत्र श्री देव चन्द्र मिश्र/90-डी, पाकेट-ए, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110095	सामान्य	समस्तीपुर बिहार	एम०बी०बी०एस० /डी०सी०एच०/एम०डी० (माइक्रोबायोलोजी)	जि०चि०, इटावा
2.	271	51520150904	डा० भारत गोस्वामी/ पुत्र स्व० श्री रमेश चन्द्र गोस्वामी/59-सी, शास्त्री नगर, पो०-कृष्णा नगर, मथुरा	सामान्य	मथुरा	एम०बी०बी०एस० /एम०एस० ऑर्थोपेडिक्स	जि०चि०, फिरोजाबाद
3.	457	51520377379	डा० पायल अग्रवाल/ पत्नी श्री गिरीश गर्ग/बी-10, एच०आई०जी०, से०-23, संजय नगर, गाजियाबाद	सामान्य	दिल्ली	एम०बी०बी०एस० /डी०एम०बी० (जनरल मेडिसिन)	जि०चि०, बुलन्दशहर
4.	711	51510168384	डा० शैलेश कुमार आर० पटेल/पुत्र श्री राधेश्याम एस० पटेल/द्वारा श्री हिन्द लाल पटेल, मानापुर, पिण्डरा, वाराणसी-221206	सामान्य	महाराष्ट्र	एम०बी०बी०एस० /एम०डी० पैथालाजी	जि०चि०, मिर्जापुर
5.	735	51530352918	डा० आकांक्षा/पुत्री श्री ब्रिजेश कुमार/आर-6/177, राज नगर, गाजियाबाद-201002	एम०बी०बी०एस०	गाजियाबाद	एम०बी०बी०एस०	मुरादाबाद
6.	740	51520276539	डा० प्रशान्त टिबडेवाल/ पुत्र श्री प्रमोद टिबडेवाल /अमित टिबडेवाल, आमकार मंजुसा, कटरा, पेंडरा, कुशीनगर-274304	सामान्य	कुशीनगर	एम०बी०बी०एस०	सिद्धार्थनगर
7.	783	51520299355	डा० धीरज कान्हाल/ पुत्र श्री डी०के० कान्हाल/491/27/ 4-1, भुलई का मुरा, पो०-तेलियरगंज, इलाहाबाद-211004	सामान्य	इलाहाबाद	एम०बी०बी०एस०	चित्रकूट
8.	1011	51550136989	डा० अजय कुमार/पुत्र श्री अविनाश चन्द्र/ दरगाह शरीफ, स्टेशन रोड, चुनार, मिर्जापुर- 231304	ओ०बी०सी०	मिर्जापुर	एम०बी०बी०एस०/ एम०एस० जनरल सर्जरी	जि०चि०, सोनभद्र
9.	1060	5151022818	डा० संजीव कुमार द्विवेदी/पुत्र डा० राजेन्द्र द्विवेदी/डी०एस०पी० रेजीडेन्स के सामने, सिविल कोर्ट रोड, गरवा, झारखण्ड-822114	सामान्य	गरवा, झारखण्ड	एम०बी०बी०एस०	मिर्जापुर
10.	1240	51520147478	डा० नलिन शंकर सिंह /पुत्र श्री अभय शंकर सिंह/410, इशाफ नगर, से०-10, इन्दिरा नगर, लखनऊ	सामान्य	बहराइच	एम०बी०बी०एस०	रायबरेली

क्रमश...

11.	1362	51520261857	डा० पुनीत कुमार तुलस्यान/पुत्र श्री राम गोपाल तुलस्यान/ कम्प्यूटर शापी, नियर बाटा, गांधी नगर, बस्ती-272001	सामान्य	बस्ती	एम०बी०बी०एस०	देवरिया
12.	1426	51520295659	डा० रूपाली गुप्ता/ पत्नी श्री वी०के० गुप्ता /53-बी, पोकेट-आई, दिलशाद गार्डन, नई दिल्ली-110095	सामान्य	नई दिल्ली	एम०बी०बी०एस०	बुलन्दशहर
13.	1437	51550271152	डा० मनीष कुमार/पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता/ग्राम व पो०- शीतलगंज, जिला-जौनपुर-222161	ओ०बी०सी०	जौनपुर	एम०बी०बी०एस०	अम्बेडकरनगर
14.	1766	51520195138	डा० नीतू गुप्ता/पुत्री स्व० श्री के०एल० गुप्ता/23/25, बृज बिहार कालोनी, आगरा रोड, टूण्डला, फिरोजाबाद	सामान्य पी०एच०	फिरोजाबाद	एम०बी०बी०एस० / आब्स एण्ड गायनी	जि०म०चि०, हाथरस


(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

<http://shasanaadesh.up.gov.in>

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत एलापैथिक चिकित्साधिकारी के पदों पर लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2015 में चयनित चिकित्साधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप:-

समक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक-----शपथ पत्र डा0-----

----- पुत्र श्री/डा0-----निवासी-----
जनपद-----में डा0----- शपथकर्ता उपरोक्त निम्नलिखित
बयान करता हूँ:-

1. यह कि शपथकर्ता की नियुक्ति शासन के कार्यालय ज्ञान संख्या----- दिनांक
-----द्वारा 30प्र0 प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत एलापैथिक
चिकित्साधिकारी के सामान्य उपसंवर्ग के पद पर नियुक्त करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य
चिकित्सा अधीक्षक-----के अधीन तैनात किया गया है।
2. यह कि शपथकर्ता के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला अथवा अन्य कोई ऐसा मामला लम्बित अथवा
विचाराधीन नहीं है, जो उसे उक्त पद पर योगदान करने अथवा शासकीय सेवा करने के लिए आयोज्य
ठहराता हो।
3. यह कि शपथकर्ता के चरित्र एवं प्राग्वृत्त संगठन का सदस्य नहीं है।
4. यह कि शपथकर्ता के चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन में कोई अन्यथा तथ्य एवं प्रतिकूल तथ्य पाये जाने
की दशा में मेरी नियुक्ति निरस्त कर विधि सम्बन्ध कार्यवाही की जाती है, तब प्रश्नगत नियुक्ति/तैनाती
के सम्बन्ध में कोई अधिकार/दावा/क्षतिपूर्ति क्लेम नहीं करूँगा और 30प्र0 शासन को अधिकार होगा
कि वह बिना कोई कारण बताये मेरी नियुक्ति निरस्त/समाप्त कर दें।

दिनांक-----

सत्यापन

मैं डा0-----शपथकर्ता ईश्वर की शपथ लेकर/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि उक्त
शपथ-पत्र के प्रस्ताव 1 से 4 के तथ्य मेरे निजी ज्ञान में सच व सही है, कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
ईश्वर मेरी मदद करे।

दिनांक-----

(शपथकर्ता)

चरित्र प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि डा0-----पुत्र श्री-----
निवासी-----
को विगत-----वर्षों/माह में व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मेरे संज्ञान में ऐसे कोई
तथ्य नहीं हैं, जो इनके प्रतिकूल हो।

डा0-----मेरे निकट सम्बन्धी नहीं है, उनके उल्लेखित चरित्र एवं
प्राग्वृत्त के अनुसार उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

हस्ताक्षर-----

निवासी-----

<http://shasanavadesh.com>